

PROSECUTION OF M/s SIRAJUDDIN AND I Co.

220. SHRI M. P. BHARGAVA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that instructions have been issued for prosecuting M/s Sirajuddin and Company of Calcutta for violating the Sea Customs Act; and

(to) if so, when the instructions were issued?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARI R. DESAI): (a) and (b) The decision to prosecute M/s Sirajuddin & Co. was taken by the Calcutta Custom House on the merits of the case and the question of the Government issuing any instructions for prosecution does not arise.

गांधी सागर बांध से सिंचाई की सुविधा

२२१. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी सागर बांध से कब तक सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि सिंचाई की सुविधाएँ प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है तो इसका क्या कारण है ?

IRRIGATION FACILITY FROM GANBHI SAGAR DAM

221. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) by when irrigation facilities are likely to be made available from the Gandhi Sagar Dam; and

(b) if irrigation facilities are not likely to be available, what is the reason therefor?

सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० वी० अगेशन) : (क) और (ख) : गांधी सागर बांध के संचय से सिंचाई की सुविधाएँ पहले से ही प्राप्त हो चुकी हुई हैं। कोटा बराज से निकलने वाली नहरों के द्वारा गांधी सागर बांध में जमा किया हुआ पानी राजस्थान और मध्य प्रदेश को सिंचाई के लिए क्रमशः नवम्बर, और दिसम्बर १९६० में दे दिया गया था। गांधी सागर बांध से सीधी प्रवाह सिंचाई आर्थिक पहलू से सम्भव नहीं है, चूँकि इसके साथ वाली दोनों ओर की भूमि ऊँची है।

•[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI O. V. ALAGESAN) : (a) and (b) Irrigation facilities from the storage of Gandhi Sagar Dam have already been made available. Water stored at Gandhi Sagar Dam was released for irrigation through the canals taking off from the Kotah Barrage to Rajasthan and Madhya Pradesh in November and December, 1960 respectively. Direct flow irrigation from the Gandhi Sagar Dam is not economically feasible as the adjacent lands on either side are high.]

स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा आयात की गई सामग्रियाँ

२२२. श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा १९६२-६३ के दौरान आयात की गई सामग्रियों की कर सहित पोर्ट पर क्या कीमत थी, उन के लिए कितना कर दिया गया और कॉर्पोरेशन को उन के लिए कुल कितनी कीमत देनी पड़ी; और

(ख) यह सामग्रियाँ किन दरों पर बेची गई ?